



(An ISO Certified Company)

Ayurvedic Tea

Univeda™

P O W D E R



उत्साहवर्धक
(Energy Booster)

रोगप्रतिरोधक क्षमतावर्धक
(Immunity Booster)

दांत-मसूडों को मजबूत बनाये
(Makes Teeth & Gums Stronger)

दृष्टि बढ़ाए
(Improves eyesight)

उच्च प्रतिउपचायक घटकद्रव्य
(Higher Antioxidant Factors)



त्वचा और बालों का स्वास्थ्यवर्धक
(Improves skin & Hair Health)

पाचन सुधारे
(Improves Digestion)

तनाव दूर करे
(Reduces stress)

चरबी घटाए
(Fat Burner)

विष हरण करता है।
(Detoxification)

कैंसर होने की संभवना घटाता है।
(Reduces Risk of Cancer)



संपूर्ण परिवार की अपनी चाय

॥ आरोग्यम् धनसंपदा ॥

Health is Wealth

चाय भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन चुकी है। जिस दिन चाय ना पियों तो ऐसा लगता है मानो दिन की शुरुआत नहीं हुई है। भारत में लगभग ९० प्रतिशत लोग चाय जरूर पीते हैं। चाय एक परंपरा की तरह चलन में है। मेहमान का स्वागत, गपशप, चर्चा हर जगह चाय मौजूद होती है। ऑफिस, व्यवसाय हर जगह काम के बीच में चाय जरूरी पेय है।

लेकिन क्या चाय सहीमें फायदेमंद है? क्या चाय एक अच्छी आदत है?

इसका जवाब है – नहीं

दिनभर में एक बार से ज्यादा चाय सेहत के लिए हानीकारक होती है। कुछ विशेष प्रकृति के लोगोमें तो चाय का एक बार सेवन भी नुकसानदायक होता है। आए देखते हैं चाय से शरीर को क्या हानी हो सकती है...

१) एसीडिटी बढ़ाती है। २) ज्यादा सेवन से पेट में नासूर (गंश्रलशी) हो सकता है। ३) पाचन शक्ति खराब होती है। ४) नींद कम हो जाती है। ५) ज्यादा पीने से हृदय की धड़कने बढ़ती है और हृदय बीमारियों की संभावना रहती है। ६) चायमें टॅनिन होता है जो शरीर में अॅसिड की तरह काम करता है। ७) जितनी चाय पीयेंगे उतनी चीनी शरीर में जाएगी जिससे मोटापा बढ़ता है। ८) ज्यादा चाय सेवन से दांतों में पीलापन आ जाता है। ९) चाय पीने से मुख्य हानि ये होती है की यह रक्त में आयरन (लोह) को अवशोषित होनेसे रोकता है। जिससे खून में आयरन की कमी हो जाती है। १०) आयरन कम होने से रोगप्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ११) चाय में उपस्थित कॅफिन के वजह से कुछ वक्त तक ऊर्जा महसूस होती है पर कुछ देर बाद काम करने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दोनों भी कम होती है। १२) अनिद्रा, डिप्रेशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लडप्रेसर आदि अनेक बीमारियों में चाय हानीकारक होती है।

आज का मानव तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन इसी के साथ वो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए मानव नए नए पदार्थों के गुणधर्म ढुंढ निकालता है और इस्तेमाल करता है। क्योंकि मानव अभ्यासक है। ऐसे ही एक शोध और अभ्यास से युनिवेदा नामक आयुर्वेदिक ड्रिंक का निर्माण हुआ है। युनिवेदा ना सिर्फ तरोजाजा करती है बल्कि स्वास्थ्यसे जुड़े कई फायदे देती है। चाय के लत से बचा सकती है और कई बीमारियों में इलाज की तरह काम आती है। कई चुनिंदा आयुर्वेदिक औषधी से युनिवेदा बनाई गई है।

इस ड्रिंक में तीन महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनमें ORAC (Oxygen Radical Absorbency Capacity), EGCG (epigallocatechin - 3 - gallate) एवम Polyphenol शामिल हैं जो कि Antioxidants catechin से भरपूर है। इनमें विटामिन उ एवम विटामिन ए की प्रचूर मात्रा है। अतः इसे सबसे उपयुक्त Anti Aging पदार्थ माना जाता है। शरीर की पुरानी बीमारियों से भी लड़ता है।



आए विस्तार में जानते हैं इसमें कौन कौनसी औषधी है और वे किस प्रकार काम करती है।



यष्टीमधु (मुलेठी) - सर्दी जुकाम-खाँसी में रामबाण औषधी । गले की खराश में लाभदायक। कब्ज, गैस, बिघड़े पाचन में गुणकारी, रक्तवर्धक, रक्तशोधक (Blood Purifier)। कॅन्सर की रोकथाम, हृदयरोग का निवारण। मासिक धर्म चक्र नियमन। मूँह के छाले, जले-कटे घाव दूर करे।

अश्वगंधा - Antiaging तत्व से बुढ़ापे के लक्षण जल्द नहीं आते। आलस्य भगाकर उत्साह बढ़ाता है। रोगप्रतिकार क्षमतावर्धक । चिंता, तणाव दूर करे। पाचन तंत्र सुधारता है। जोड़ो के दर्द में लाभकारी डायबिटीज, बीपी दोनोमें फायदेमंद। स्त्रीयो की प्रजननशक्ती और पुरुषों के वीर्य का गुण बढ़ाता है। यौन शक्तीवर्धक।



तुलसी - जुकाम, खाँसी से बचाए। पाचन बढ़ाए, ताजगी देती है। त्वचा निखारती है, मुँहासे भगाती है। मूँह की दुर्गंध हटाती है। तणाव दूर करने में श्रेष्ठ । पथरी के तकलीफ में उपयोगी, दर्द निवारक। बालों के लिए स्वास्थ्यदायी। डायबिटीज नियंत्रण।

अदरक - श्वसनतंत्र साफ करता है। बुखार, सर्दी, खाँसी, टीबी सबके इलाज में प्रभावशाली। पाचन सुधारे और भूख बढ़ाए। रक्तशोधक, रक्तवर्धक। मोटापा घटाता है। जोड़ो का दर्द निवारक। यौन शक्ती बढ़ाए। कब्ज, गैस, डकार आदि समस्याओं में इलाज।



आमला - प्रचूर मात्रा में Antioxidants होते हैं। रोगप्रतिकार क्षमता बढ़ाता है। आँखे, त्वचा, बाल तीनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयर्न होते हैं। चयापचय (मेटाबॉलिक) क्रियाशीलता बढ़ाता है। पाचन सुधारता है। डायबिटीज नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर में भी गुणकारी है। मुत्ररोगों में भी प्रभावशाली है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है।

ग्रीन टी Ext. - भरपूर Antioxidants होते हैं जिनसे बाल मजबूत और स्वस्थ होते हैं। Dandruff, Hairfall सभी में लाभदायक। दांत मजबूत बनाती है और Cavities की संभावना दूर करती है। इसमें बायोऑक्जिटव्ह यौगिक होते हैं जिनसे न्यूरोन्स पर सुरक्षा बनी रहती है। स्मृति बढ़ाती है। अल्जायमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से दूर रखती है। प्राकृतिक Fluoride, Polyphenols, Catechins प्रभावी ढंग से Bacteria मार देते हैं। वसा कम करता है, विशेष रूप से पेट और कमर की चरबी पिघलाती है। चयापचय सुधारती है। जिससे fat जल्द नष्ट हो जाता है। मधुमेह से पीडित लोगोमें रक्तशर्करा को नियंत्रित करती है। खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाती है। धमनीया साफ रखती है, हृदयरोग से बचाती है। कॅन्सर की जोखीम को कम कर सकती है। उच्च fluoride के वजह से हड्डियों में मजबूती लाती है। AntiAging होती है।



How To Make Healthy Cup of Univeda



Take
50 to 60 ml
hot water



Add
1 Spoon



stir
well



Enjoy
Healthy Cup
of Univeda

■ Do Not Use Milk ■ Store in Cool & Dry place ■ Drink once or twice a day.



हमारे प्रॉडक्ट इस्तेमाल करने के बाद मिलने वाले लाभ से संतुष्ट हुए हमारे कुछ हैपी कस्टमर्स



- अनिल खंदारे – वर्तकनगर, ठाणे वेस्ट
- फिरोज शहा – भगतसिंग नगर, गोरेगांव वेस्ट
- रुकसाना कुरेशी – कुरेशीनगर, कुर्ला ईस्ट
- कामिनी मेहेरा – कोळीवाडा, माहिम वेस्ट
- विजयकुमार गुप्ता – केलाबखार, सायन वेस्ट
- तुकाराम गावडे – गोकुळनगर, चेंबुर ईस्ट
- अहमद शेख – बारी कॉलनी, नालासोपारा ईस्ट
- सुदाम चोरगे – संतोषनगर, गोरेगांव ईस्ट
- राधिका जयस्वाल – संघर्षनगर, चांदिवली
- मेहरू शेख – शिवडी क्रॉस रोड, वडाळा
- स्नेहा पवार – मालवणी चर्च, मालाड वेस्ट
- गौतमी भालेराव – शाहिद मंजिल, मुंब्रा
- आयशा खातील – घोगारी मोहल्ला, मस्जिद बंदर
- अर्चना कळसमकर – भवानी शंकर रोड, दादर वेस्ट
- अंजना प्रभू – संभाजीनगर, अंधेरी ईस्ट
- सुप्रिया पवार – रेसकोर्स, महालक्ष्मी
- दिलीपसिंग – पटेल ट्रेडिंग कंपनी, रे रोड
- नाझिया मंजुरी – कोकणी मंजिल, मस्जिद बंदर
- रुपाली कर्के – सुंदरनगरी, सीएसटी
- राजेश चौरशिया – पवई विहार कॉम्प्लेक्स, पवई
- लीना रिचर्ड – खोजगाव, बदलापूर
- रामकृष्ण हिंगे – विठोबा मंदिर, पुणे
- अपर्णा तांबे – भटवाडी, घाटकोपर वेस्ट
- नीशा पाटील – जयमातादी कॉम्प्लेक्स, भिवंडी
- आयशा खान – बेहरमबाग, जोगेश्वरी वेस्ट

- नीता अलवेकर – नवरत्न हॉटेल, सीवूड
- माही शेख – तळेगाव, पुणे
- नागेश्वरी चडीयार – नेहरूनगर, विलेपार्ले
- नीलम मोरे – उमेशनगर, डोंबिवली वेस्ट
- राजाराम पाटील – मानिवली, नेरळ
- दत्तू पाटील – पडलेगाव, डोंबिवली ईस्ट
- निगार शेख – किस्मत कॉलनी, मुंब्रा
- शोभा वांद्रे – साईनाथ नगर, सायन
- किरण कोशी – मनोरमा नगर, ठाणे वेस्ट
- सुवर्णा मुंडे – आगासन, दिवा ईस्ट
- मुस्कान वडगामा – हरि मस्जिद, जरीमरी, कुर्ला वेस्ट
- नवीता रेड्डी – महाकाली क्रॉस रोड, अंधेरी वेस्ट
- संदेश देशमुख – रामटेक बंगला, ग्रॅंट रोड वेस्ट
- गणेश केने – भावाले गाव, भिवंडी
- जरीना बेग – सुंदरबाग कमाना, विद्याविहार वेस्ट
- अफसाना खान – संजयनगर, गोवंडी वेस्ट
- शेखर चौधरी – खैरानी बाग, घाटकोपर वेस्ट
- खालीद शेख – मोतीलालनगर – 2, गोरगाव वेस्ट
- मेघा शेडगे – पठाणवाडी, मालाड
- महक खान – गुलशन नगर, जोगेश्वरी वेस्ट
- सुनिता अष्टुकर – आनंदनगर, वर्ली
- युसुफ शेख – खारघर ईस्ट
- राजेश शेख – भायखळा वेस्ट
- नसरीन रिझवी – काजुपाडा, जोगेश्वरी वेस्ट
- आशिया शेख – पार्कसाईड, विक्रोळी वेस्ट

UNI PLUS HEALTH CARE (INDIA) PVT. LTD.

(An ISO Certified Company)

Head Office : Laxmi Udyog Nagar, Above V MAT Health Spa, L.B.S. Marg, Kanjurmarg (W)

Branch Office : ● Building No. 06/186, Kopari colony, Phataka Market, Thane (East)

● Ganesh Marg, Pachubhai Chawl. V. T. Bekary Marg, Vikhroli (East)

● 502/Bansal Plaza, Ravet Pune. Mob. 9223310403

Customer Care & Free Home Delivery

022-25773700 / 9223162128 / 9223269345 / 8976769988 (Time - 9.00 a.m. to 7.00 p.m.)

For Trade Inquiry Only : 9223368699

www.uniplusindia.com | uniplusindia@gmail.com | info@uniplusindia.com

Ayurvedic Proprietary Medicine

